329
Hindu
stotra

ॐ नमः श्रीकुब्जिकायै ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ ॐ नमस्तुतं महामाय सूक्ष्मरूपपरापरे नमः का
किनी विशुद्धाख्य नादाङ्कबिन्दुमालिनि ॥ अदृश्याद्यमेसेव्यम अचलविद्यमानि ॥
महाकुलकुलनीनित्य देसमस्तव्यवस्थिता ॥ भासमहत्यानि मध्यस्था यामवापिप
वायनाओंकारनविरहावस्थ हकानादार्द्धेन्दुरूपिणि ॥ वालारुणतर्यहेश्वन
कवाक्षयपयहकानादिकनाक्षठस्थ यन्नाकिकुलमालिनि ॥ सकलाख्य महा
मायावनद सौकपूजिता ॥ नकक नादमध्यस्थे मन्मनककरायिनि ॥ अक्षोभ

क्षसाक्षानवदिनिवक्षनेधणाविघ्नसताजि रोद्रविशुओंगकुटिलाकृति ॥ व्रह्मा वि
ष्णुरुद्र ईश्वर वनस्थ सदाशिव अनन्तयस्थ महासनायादभूतयवस्थिता ॥ अंस
कजननीदविनमस्थ शक्तिनयनी ॥ हंसपिण्ड समध्यस्थमण्डलतनुरूपिणि ॥ विन्द
मध्यगतादविकृति संचार्द्धवद्धिका उद्यानकनिकारासद्वादशान्तस्वलविनि ॥
उमार्द्धहृद्गगोनिनादशादिश्यवर्द्धस ॥ शून्याशून्यानकनावस्थहंसाख्य प्राणक्ष
तिनि ॥ सघाख्यपनमादविदक्षिणोत्तरगामिनि ॥ नासाये उसम लीपुरमध्य

शूत्रप्रवाहिनी॥ हूं स्वप्रमानन्दतारमूर्ध्निव्यवस्थिता नादघण्टिकसंघृष्ट
घुण्टाखक्कसमन्विता॥ स्थूलसूक्ष्मस्वसिद्धं धर्म्माधर्म्मपूर्णदर्या॥ कार्य्यकारणक
र्तृत्वं त्रिशून्यं नादविग्रहा॥ पत्रापत्रपदं शुद्धं यौ शाश्वतं ध्रुवा सर्व्ववर्ण्ण ध
नीद विशुद्धस्तल्लवि विग्रहा॥ शक्तिसूत्रमहाघोररु विन्दुवीजसमन्विता॥ भगवी
श्मदाहाकायसंसारार्ण्णवतारिणि॥ जयावाविजयाचैव जयन्तीचापराजिता॥
ॐ वज्रवीजम श्वश्क नमस्कारपमायनी॥ वन्धमाक्षकरीदेवि शान्तिमन्द्रयवशि

तारोद्विनी शक्तिमूलं महाघोरसमन्विता॥ रमणी रामणी रौद्री मायामन्त्रप्रवाहि
नी॥ स्वच्छन्दभैरवीदेवी सर्वकामप्रदभैरवी॥ पञ्चशब्दमूर्तिरूपकालव्यारूढाग्रकोटि
नाथाश्मशानास्था रुद्ररूपस्वस्तु नमःकपालिनी शिवा॥ नरहं किनी महामाये नमस्ते भ
गत्रैरवी॥ उग्रा कर्णविशूलि कल्पान्तकाग्नि रयानना॥ नमामि देवदेवेशि घोर
घोररूपिणी॥ ज्वालामुखी भगवती उमादेवी नमोस्तुते॥ योगिनी च प्रियादेवी लम्बे
नीलश्मशानवासिनी॥ हंसस्वनाद्धं गदेवी लम्बमुखी शक्तिमालिनी॥ कामुकी शुक्लम्बद

वीदुर्गाकात्यायनीनिवानिशंश्चिनामसमाख्यातानकावेकाद्नायना।।ब्राह्मी
माहेश्वरीचैवकौमारीवैष्णवीतथा।वाराहीचैवमाहेन्द्रीचामुण्डाचैत्यानना।।
यापातिसिंहिदिव्यंगिरूतास्सकविरूपिना।ऐन्द्रीचैवउग्रासनयीयाम्यानैऋर्त्ये
रुणी।।वायव्यांचैवकौवेरीईशानसमुदाहृता।।ययागवर्णकालीअट्टहासाज
यन्तिका।।नतिशैकासमकचैवदेवीकाकरुणावाम्मीं।शुगिनाश्रीनवदुर्गाक्षेम
रूपेनव।।कलालीतीरवनीचैवसंहारनाथैववाइक्षानथाकालीउमादेवीदेवद्

तीनमाम्तुतं।।रुद्रकालीउर्मदेवीचमर्ममुण्डत्यायहा।महासूक्ष्ममहापरानन्दनमस्य
किनूयिनी।।रुद्रविश्वलिखाहाकृदयात्वंउरूरश्यमाद्वं।देवीसरण्यपन्नंकृत्स्नक
नर्मममम।।दयांकृत्स्नश्यमसमस्याकूमक्तिस्थाननियाजयाज्ञानाथिनामहामायेनतदि
च्छानिवर्धितुं।।यह्विदेयत्रगस्मातंत्रिसंध्यंचैवमानवक्षय्याप्नोतिश्रियविन्दितान्कामा
नस्त्रीभर्तारवतिवन्तुलक्षी।।इतिश्रीशिवशक्तिसमन्वयंमहामायास्तवसमाप्तम्।।०।।
नमस्तादेगजेवर्षेदशम्यांरुद्रयासरावसरतमधूकन्वलिसखाँनन्दनाजकम्।।०।।

ॐ नमस्तसे ॥ श्रीवैरचनाय ॥ वक्रामिकवयं दिवंप्रि
पूजाया ४मजाल्मं । विक्षान माग्र यलदं ग्रु क्रिः
दंमू क्रिदंस्तुथ ॥ ॐ ह्याकपवग्रायि सर्वैसः
म्यगिदा यक्रं । कल्यक्रा ठिबूयत्ताध्यं नत्ताध्यं क

पय नगु ॥ अवर्ज्ञाय सर्वैन ग्रुर्जूपग्र लिखावय २
। ॐ कानस्तु सिनयागुल लाठ सपवस्तुथ ॥ गन्तुया
४ग क्रिवीजा ख्यं नासायो कमला सन ४ नग्र सूनव
गिपागु कथं नक्रगुपावक ॥ कक्रयाजीव रस नारखाना

वी पं व म्ब ना म म । वि स म्र लि ङ्ग न पा तु लि ङ्ग द लेल
नि प्रि य ४ । स र्व न स्वा क न ४ पा तु ना द ४ पा दा दि क्रो न
नू । ष्म्र न्ह नं ह्न द यं पा तु न व र्ज्ञ ति न यं न क्षा । ना रि न
घू ग सं प ष्ठ पा द्व पा ग्म दि नी नि च । क्षि र्न्न क र्लु यू गं

पा तु क्ष दि नी न द क्षे व ना तु । क कू दं लौ म ल्ह क्ष । र कू
रू पा तु च पा ग्ह यं । ऊ थ लं न द क्षे वा म न त्र विं दू वि र्द
वि नं । भ क्ष ल्ह वा वि स र्ग्नो ग्घा लि ञ्ज द दुं यू ना तु म । ना
न ४ पा तु नि न न्ह म्र्म क्ष मा पी ऊ मू त्रू द्व यं । नम स्क्षा

दिनीयातु उंघयेंउंकनी सदा। दीयनी। सन्ध्वयातु
क्रुदिनी चू विन क्रश्रा॥ वैनच्वविद्याविभिकेभदास्या॥
ह्लादिनी नथा। चू ह्लिनी सनंयातु महाप्रियून:
स्रैनवी। यंचविद्या च्विनायातु मङ्गमान च्वरैनवी॥

। कृतनया च्विनायातु लुकुवेनं च्वरैनवी। दक्ल
खीसदायातु वा रु यंकेउ मू रु मी। नस्वाङ्ग कामना
ज्ञा खीं थाभीर्घं ग किवाजक। ते ग स्की कवयें यून्वस
र्वं यापयनासनं। वनयू नदं द विरकानाविज

थंवदभ।न्यसनाकुवनाद्वापिरेवविसाधकावद
दहस्या भाद्दयाञक्तिसंगयं४॥ह्रींह्रिंश्रीञागिनीग ५८
त्रुश्रीहेववीकववंसमाप्तं॥ ॐ नमाहेवज्र॥
॥दयुवाय॥ल्ह नूयूत्रव ह स्वम समयायावलद

नी।यनखिना नसिथंक्लिउ न्मकाठिस हस्रसद्यां
सिद्वा४स्म नोक्लिनद्दख्वंयूयायावनत्यव४।उप
वयिकं४सर्वत्रसमयायावपायक४।पवनिद्रासकि
यूस्वानु उपकाववनसदा४।मनसायिकयद्देवीस

दानरूपायनायना ३॥ नकवर्णांनकपूर्ण्यां विलासत्रि
पुनासिकां॥ पनम्यर्द्दिकुवरूमा विमंभ क्रमूदीनयत्
।दिंभूकपूष्टसंकालेत्रिपूरेरुयनासिनी॥ राम्याद
यसमुत्यन्न नमक्रुवनवन्निनी॥ कुष्टुपन्मुंनयाय

स्यां राजानं राजपूत्रकं॥ नहिसकूलदवकुइष्टा:
महिसमर्द्दिनी॥ मध्यराजुंलमालाष्ट मल्लुमांसंव
नस्त्रियं॥ इष्टाव रौनवादवीत्रनम्यत्रजेयन्म नूघा
नविघ्नविनासायकूनावानसमुर्द्वय॥ नमामियवद

दवी सूनुमालाविरुद्विकारलेपू[illegible]र्थं तथागतय
सनास्य वेगं गतथ॥ लियोदय्यतथागतवेन्द्र त्वाकाके नः
त्येवच। ज्ञमं कविगतथाविद्धे लिवद सैनभावयगतात
स्मृतस्मृल कंचेवच न्दनन चको पूज्यकं। जूदिवयधने स्मृ

कर्थं प्रियूयावेकदाचन॥ सरात्र्यायदिवादवयप०व
याजवस्मनि। नग्रयदिवंहू नमनसाजर्थ्ययित्वंवं॥ स्म
न्मा त्वं विनिथाजयन्तू प्रर्वन विविननैव। निर्जी नस्मन्
मन्दय। यनुस्म०जलेमध्येयदिदवार्गतिरुवन्तु॥ [illegible]

ङ्गे ध्याला मनुऊष्मान ला गच्छ सूखावहे । गन्धवी कुमरु
काली नमस्कूर्या दल क्षितं । कुमकली नथावोक्ष ऊष्मू
क्षियमदू लिका ॥ कुलमेदवि मक्षमलु(े)सुऊक्ष लिवः
लि प्रिय । नमस्कृवनदद वि कातिक धोनबू यिनी ॥

सगान ॐ सर्वेहक्षा प्रद क्षि नम नूवृऊन ॥ वृलम्या
न नमस्क्रु न मंत्री मूखम वायूयानू । धोनद्रक्ष्कृकु
वाक्षी क्षिति गद्वप्रलादिनि ॥ घनूधोनव वाह्य वनम
स्कृसी लियाति नी । ॐ लिगक थितं पूत सम याचानव

द्धनं ॥ ९ ॥ गायं पर्वतं चरु स्यं भक्त से चिनु पक्का सितं ।
नु त समान्द्र र्ग नाक्व यांद नैवं प्रकु द्वैत । नक्किम
नंं यूव स्तु ग्यां त स्तु सिद्धि नजायत । जयवं विन्नय
त्रीव. मम रु क्कि पनायण ॥ सा धक्का रु क्कि याव न सर्वा
साद्ध कर क्लिमा ॥ ॐ तिय नमन रुस्यादि नरुस्य समयाय नमः

९ ग्याधि ॥ स्तुत्यादि ॥ तारी च प्रज्ञा हन थिय ॥ ॐ नमस्य दिकायनम
जाच्छवीम चूर्के नर स्यादि ॥ सिधिनमु क्वियालीन. रुधिनमु थिना पूरव
पूष्ठिनमु सलिलस्य. सान्ति नमु स्तुरुनव. सर्वविघ्न नाशम नं. सर्वस
न्ति कर्मा स्यदु श्वायपु । वकामिच. लक्ष्मी सुपति वर्धनं. जयमवा
न भाग्यावानी. कवचं रुदनि दायकं. नरुद्व विद्या गानी. सान्ति
हवरु दायक ॥ ॐ जमांस्य गो महत्वो रूउय यंदाष्ट यज्ञनि निर्यथं
कमण्डलु. पुष्प हाॐ नमनमस्करामि ॥

न१

थाग मात ग्री ॥ ॥ मा ह्क्का गें न दि कल थल ग्र गन क

नु नि ग्र क्रु व ज्ञा व त लें ॥ थागी नि गन त ख न हल

थि न नि थ्र सा ग्र न ल ॥ ॥ ह्रु दि नं ह्रु न नें ता न न न थ

ल दे ब मा ला हें थ्रित ग्र म्ह दं ग ला ग्र न नें ॥ ॥ सवहि

सं ग म ज्वं ग ज्व न्हु व म लें ग ला ग्र न नें ः न कु थु नी ३

नि ज्व सु ल मां ह्रि नि दे व म न सं ग्र त स्व हल नें ॥ स कु

त ह्लु ल व कु न ह्व कु व सु क ज्व सु मा न त लें ॥ न कु

2.103 I

[illegible] नाह वा [illegible] सारसमनानिदि [illegible] ओ।तितन्हगत
तनिज गत।नी विनति [illegible]

[illegible]

२ हग्मकानह्वायनी। [illegible] दिस४ काकेनन्वाह्व
काविन्दूनूपावधूनार्द्धयन्त। ह्नति ह्लवरीकानाङ्कुतमकावर्वंकावसंथाङ्ख
नतह्वमायह्वत।तम्नूयास्वरूमाँतातथानन्दगक्षि४सँह्नक्षाविनूयमता
र्घीसनी।रुानूस्नाताविथीसाभिका।ह्नानूस्नाठनास्वावसघीतनोकागम
घान्भिकानूरहीमकूनाविगा।र्वमकाभनसंकागिनीघाउभाकाम।।विन्दूसं
दाह्नी।र्घंददहयूना।मयसंम्यकूमन।र्दतिर्वां।मोरवृघदरेवबीहेनवा
घानुकीत्रानुगक्षि।घमामाविनीनुउमानाविनेनूउमक्षि४मलोविद्धिया।
[illegible]
॥४५॥

ष्ट्री। सिद्धि माला। वि सु ४ हुं से त्रागी क्रिया। न्या र्लुवी। वाञ्छित हस्ता द्विवा गीष्टनी। मा

र्हस्का सिद्धि स्त्रि स्त्राहया मञ्जना। सिद्धि सस्त्री वि हृदि सुहृ ति र्ष्मि ति ४ स्म श्य ति स्त्या वि

न्त्रायणी। त्रक्र वज्र कलाल खना री मनूया मह्रा क्रूष्मा या ग प्रिया। लं यथं स्या

ङिना। नूउ संभाकृनी। वैंक्रं वंलुं कं नं। सं खं नां रीं मं नूं यां मं ह्रां क्रूं ष्मां यां गं प्रियां। लं उं

यं ष्यां ङिं नां नंउं सं भां कृनीः लं नवा स्मा नन्द वस्य श्वा। लं ग या ना। स्ह ता। मरु मा श्म न्ति ग मो

नि रि ठी न या ना। नून क्र। हृ नक्र स्थ सं यू स्र स। द्ध वी य पुत्र मह मे द्वि व या ना। त्सर्वे मृत्यु कस्त्र

नक्रा या गिनी। वक्र ऊन्म द्वि ऊन्म त्रि ऊन्म वसु ४ पञ्चुम दृष्यष्ठ ऊन्मा द्रुवै ४ सा

स्रुवे स्रै ष्ट्वना। त्रै ४ पुरे ४ रुनु रि स्रुपर्य स मह्य मा स प्रियं ष्या ग वि श्वा युवा हृा सि रि

मृत्युक स्काल का पालि स्के ४ द्विय व ष्या नून्ट। मनून मस्स नं ॐ का न स्वाहा। स्व धा

का न श्रोस द्वव स्स नहूं का न रुस्स नऊ। कि रि त्र त्त व मलुा। द्रु या श्वा वा। रि र्वा मरु

स्रु ह्रिम। अक्रनू मा व ला। ऊा पि रि ४ सा धक्र ४ पूत्र वै मत्यु त्र द्वि क्रि मेर्ण गि रि या गि नीः

कृन्द मला नक्रे नूनु क्रा ता नसे र्ष्यु स्र स या गि नां या ग सिद्धि प्रद दृ वी लं प ह्म प षाय

मेल्लावने ४ स्नहपुत्तेत्तुर्मपस्यमा । नसृष्टिचाकनीकृष्ठितासफयानालसंस्वर
नाशिद्विनचाहनावलेन । रक्षितायः ४ प । वदग्गुर्को । वक कासंद्विकालंस्कान
वत्तु ४ यक्तमघ्नफवास्तोग्रुवि ४ संस्नमच ४ मदामानव ४ मोपिस्रो नाग्निसकार्णुवयर्ष
नात्येपिसंनकसाद्धविपूजानूनागमस्मकानक्ष्यपुद्धाद्धमंस्रोना । नपदानान्शकृस्वव
कृष्ण । नघ्नमद्धादाघद्रूस्तुविसूचाल्किसंस्मक्षुद्धवीलन्वदायमूर्खपूर्णुवस्तानूकानेन
नदिद्यमानिस्वपात्कुत्तुलाधुस्रूगलुकुलं । यपिवद्धाद्वधेवद्धनेतुमगया । ले

त्तुंजामध्यपादागलेस्कपिन्तंन्नामसंकाकेनाद्यविमूचाल्कि । चानेर्म्मका चा
घिरि ४ ासंस्कयपादानविन्दध्वयाक्रमद्दाक्कालिक्कानाग्निमजवुर । स्कंदपे
विन्दवक्तेत्तुवन्नार्कपूर्ष्यपू । वेमा । सीमाना । सिसत्यमक्तिजस्कसन्विंजल । म
र्चवीनाखिकतेनवतेनवस्को । गनना । गमा । हंक्रमस्वायपनाधंक्रमस्वायपनाधंमि
व ॥ ॥ नवंपुन्नामहादेवीसेनवनमहात्मना । नमालिगंविनिरिंच्यनिगमा
यनमञ्जनीनीना । ॐ नमपकाकृजिनूयामहादेवा । श्रीमन्कसालवद्धनामव

सार्द्धं सिंहासनस्था ॥ स्वरूपा च विरूपा च अञ्जनका कालरूपिनी वामस्य सामिनक
न्त्रा वाम ध्वज मुखा सन्हा ॥ यद्धनय त्रिशूलं मात्रा हानं च उर्द्ध्व नुा न्द्रतुमहा
महा विकस्य वे निश्च त्रैमम ४ ॥ ॐ ह्रीं श्री मालिनी दण्डुक ह्मा त समापूय ॥ ॥
रक्ता वाम अञ्जलि पूजा ॥ न्यास ॥ ॐ वाद्य दयादि मतङ्गेन ॥ आसन ॥ ॐ आ
धारि ॥ ॐ महापद्मासनाये पायू जः ॥ ध्यान ॥ ॐ ध्यान रूपा सिंहासन च अ
नुरूपा सितवर्णि का ४ भुजं ज्वाल कपाल वदनाग्र नयनत्रय निसंकेता ४ ॥ निर्मांसा कालरा
त्रीवत् मुण्डमाला सा विरसिता ॥ खड्ग रूप कर्धनी धवातमवूखड्वाङ्ग धारिणी ॥ क्रि

कपाल हस्ता च विन्ध्याञ्चल नानथा ॥ वर्वरा पिंगकेशाच पिंगभ्रू पिंगला च
नी ॥ सर्पा र नव र त्रा भाङ्गी हा ता र न व र रूपिता ॥ उर्द्ध्वकेशी विरूपा च वाममुण्ड
पत्रमध्यमा ॥ ध्यान पूर्वं पायू जः ॥ उग्रचण्डादि सविधानत या जःसि ॥ ॐ ह्रूं श्री
सिद्धि वाम मुण्डाये वलिं गृह्ण २ स्वाहा ॥ ॐ नन्दार्का उड्डियान जालन्धर पूर्णगिरि
त्रिकामरूपी भयय वलिं गृह्ण २ स्वाहा ॥ ॐ ह्रीं ॥ ॐ आनन्द उग्रचण्डाय वलिं गृह्ण २ स्वाहा
ॐ ह्रीं पुत्र चण्डवादाय वलिं गृह्ण २ स्वा ॥ उग्रचण्डा सर्वे वलिं गृह्ण २ स्वाहा ॥ सपूर्व

रुनायिकायवासिद्धक्र २ स्वाहा॥ ॐ चन्दुयैवसिद्धक्र २ स्वाहा॥ नवेचण्डव
श्यैवसिद्धक्र २ स्वाहा॥ ॐ तो चन्दुनूपायैवसिद्धक्र २ स्वाहा॥ ॐ जं जयित्रिलक्ष्मा
यैवसिंद्धक्र २ स्वाहा॥ ःः नीउग्रचन्डाया॥ ॥ह्रं जयायै॥ ॐ विजयायै॥ सं अजि
तायै॥ लं अपराजितायै॥ मं जंभन्यै॥ नं स्तंभन्यै॥ वं मोहन्यै॥ यं आकर्षन्यै॥ ःः लिका
स्यायनि॥ ॥अं ब्रह्मायनी॥ कं माहेश्वरि॥ चं कौमारि॥ टं वैष्णवि॥ तं वाराहि॥ पं
ॐ इन्द्रायनि॥ यं चामुण्डा॥ शं महालक्ष्मि॥ ःः निजमावश्वति॥ ॥मनानउमछि

याभिलाषसि॥ ॐ जयाच विजयाचैव जयन्ती चापराजिता। नन्दा भद्रा च
धात्री माकुलाचैवाष्टकाः स्मृथा॥ १ ॥ दिव्ययोगिं महायोगी सिद्धियोगी ग
णेश्वरी। साकिनी कालरात्री च उर्द्धकेशिनि निशाचरी॥ २ ॥ महोत्तारा षष्ठी कु
लाय बनाख्यी उल्कामिका। भीषणी च महानन्दा कालामुखी तथैव च॥ ३ ॥
पिशाचीरक्तिनीचैव वयकूली धूम्रली तथा। विघ्नरूपसर्वसिद्धिरुद्रि ःः स्थानथै
वच॥ ४ ॥ ह्रूं कां नां यें नंगं गंकं भं नय स्वं तूं पं उं ङ्गं नां मं हं हां सं पं दूं यं रं

संकलातदलेषुंदलेग्रोलेत्रयालिजाधयंधुयनि निलयदमर्विआनस

मुश्रीमलाथाथदलेमनूतयथगिन्नो नाक्लिनाराकनानां॥ ॥का॥भीमग्रा

नुदलेउविदमनयथवक्षवाग कुलनमता नाश्चरुक्करुक्कइक्कउनशिविनउ

कसिद्धिक्ष्कउहानाकोलागिथ्यांदविक्ष्कादरिमगिनिसिथवनकाविदलेपु

थालेमोनाशुमक्षदलेरुउपूननगनक्षोमनकामक्षवा॥ ॥कस्थुर्क्षका

क्षतोवामनगध्यपूनवेनकेसुकूऊंकासिंगेतोत्रा॥ ७ॐ२ ॥

१२४

इंकानाराख्वनीदोर्घाभूम्राक्षीकनरुप्रियाला नंगिकाकद्दक्षीवंधा तियु

नेयाककी॥ ७ ॥नाक्तिसीध्याननादावनक्ताक्षाविश्वनूपिणी।जयाकनाओतुः

वीरमाधुक्षाक्षीननशाउनी॥ ८ ॥वीनरुउमरुाकालीकंकालीविद्गमा

नना।काटलारीमरुडावबायूवगारुयानन॥ ९ ॥ताक्ष्मीववेक्षुवाओडाव

श्विका॥ ॥श्वरानथा।वानाद्दिनानाशिंहावशिवदूनारुउ४मथ्विका॥ ८ ॥

॥दंदवामहाराप्रीवालिंदक्नुभमसदा॥डांवनसधीभ्वाक्लिनाक्षावलिंरुक्न

२ सर्वस्यान्किं कुरु २ मम सिद्धिं कुरु २ नुदं ३ हूं हूं स्वाहा॥ इति वशु ४ य ष्टी या
गिलीवलि॥ [illegible] ॥ ॐ मन्त्र ४ ग्रा [illegible] न्त्रिका यं॥ ॥ ॐ कि कुठ
वाहा॥ मार्कण्डेय मूनि ८ सु ऽ यनो मम लाखि ता द
वीना मम न [illegible] ४ ऽ ३ ॐ सपू डावना॥ मूल मन्त्र
मा॥ नं थ लाल॥ ग्री हं व का प क प॥ दिन [illegible]
ॐ नम॰ श्री गणेशाय ४॥ ॥ पार्वत्ये वा॥ ॥ ० गवम
र्व व लावं द वानां प्रीतिकारक ४॥ ॐ नर्वं कवर्य
कू दि य दि न क्षि कु याम यि॥ वानला गं क नि ष्ठामि
य दिना कथ यि था सि। सलसं लं पू न सलस लंभ कन सभ
य ४॥ ॐ ८ थे दे श्या व क ४ ऽ लो सा त्व न शिवम मं॥ वकु
याव कर्मयकं चार्वती प्रीति सादत्तं॥ ॥ ॐ ० ४ नड वाय॥
कवयवदं कं दिवं मन मन्त्रा नवर्जं ० । व कानन्त कुस र्व सर्व
दू कृ म्य विल सत ४॥ त ३ म न्त्र धा ऊ नं उ वाम दे ज्ञ ॐ कृ
यक । सं कर्व लेन द्विती या व दू कृ चन्द्र ल सन ४॥ व ३
र्वं गं स्यम सि ८ वे ऊ यद् व्यान नायया । कृ र्व ध यम

दुष्टानि वद् कायन नस्वत॥ सह्लीं बीज नला विद्याम ह्लीं द्यानाम
ति [redacted] ८८ ह्लीं। द्वाविंशानय ऊँ मम ह्लीं मकार्थ विनियोगः॥
प्रनवं कामदं विंद्याह्लीं॥ बीजं तं सिद्धिदं॥ वदकायति विद्दे
यं. मसावात कनीशन। ज्ञावद् ह्वा नना यति. ज्ञायद्ध
न कंठ्नम॥ कुरु घयं मद भ्रमनिमादनं वनि कीलित॥
वदकायम सोदं विस्फुरनं वनि कीलित॥ ॥ॐ अस्य
श्री वद्कर्णंनक कवचस्य ऋषि नवम ऋषि ४ छन्द बुध
श्री वद्कर्णं नवा देवता: ह्लीं बीजं वद् कायशक्ति ४ ॐ
कीलक धर्मार्थ काम मोक्षार्थं जपे विनियोगः॥
सद श्रीनेम ह्लाय ॐ कवचन ध व नौ ञ्जर ४॥ ॐ ह्लीं वा
उभि नानित्यं पात ह्लीं क दंशकं॥ वद् का पातु हृदय
नाहिमा वद् ह्वा ननायय। कुरु व ठय लिंगमूल माधा
रे वद् कायय॥ सर्वदा पातु। ह्लीं बीजं वाक् युग्मं नी नं तन
ष देगत हि तो दं वो नित्यं नक्र उ ब्रौ ॐ नव ४॥ ॐ ह्लीं यवद्
कायति सर्वांगं पातु सर्वदा॥ वादयो: ह्लीं कनालायवउवीला
सनं ह्र दि॥ ॐ ह्लीं नहाकन भिल पाउ क ० दं भ उ ॐ
न व ४॥ ॐ ह्लीं दन पालं ञ्जक मूलो ॐ नवीस हित ४

सदा॥ॐ क्रीं ल तिन ह्नैं नवः वाउ [illegible] ह्रि ३१। किस ह ३१ ॐ क्रीं

विश्वनाथ सदा पाउ सर्वग मम सर्व्वदा॥ॐ क्रीं [illegible] न [illegible]

दा पाउ [illegible] सन [illegible] उ व [illegible] [illegible] सिना गः मिनवा उलल

[illegible] रस ह्नैं नवः॥ व्रयन्तु वाउ व क्रीं म कन्तु म क्रा व [illegible] त वी

उम्र ह्रि ह्नैं नवः वाउ ह्रद यम मम सर्व [illegible] दा॥ ना ह्रि [illegible] क

कवाली य त्तिज सर्वहात्त ह्नैं नवः॥ मुलाध्य नै [illegible] ह्री [illegible]

[illegible] वाहृ यम [illegible] ह्नैं नवः॥ ह्र सवीज वाउ ह्र दिः सांद न [illegible]

[illegible] त ॥ [illegible] नो मम ना न ठ ड दा न [illegible] न म [illegible]॥ न [illegible]

[illegible] न मूल वृ द भ दि [illegible] सम [illegible] ॥ व्रन क वाउ सर्व्वी गंस

वीज महा हय॥ॐ लि [illegible] कव य [illegible] स्व व्रक

[illegible] नाय उ व गृ व्रदनी लम ह दे व व्रकी कितय

य ॰ [illegible] यादें वि वायन वयीं लमा त दानंद मया

उवी त ह न व म व द॥ यत्र [illegible] य दें वि कवथ

मम् सवादि ना [illegible] ज न्मा [illegible] न पा वें वि न [illegible] [illegible]

न जना॥ जत्तम [illegible] मिम [illegible] वाहृ गृह भ [illegible] का

॥ कव यस्मा नल्म देव सर्वत्र विजया हन॥ ह क्रि यु नम
सा कं वय यु ऊ ध्य द्दि॥ काम म्मुल्य ना नीन्मनि द य भाव मम
नस्य वा दी दृ ऊ ठ द नाक्षं मृकृत हृ वनं॥ नस्य हनि वि श्री
न कृ व ना चि ति न मृ नश॥ नस्य विष्णु त मा ऊल मनु सिद्धि नमर्म
य॥ ॐ दं कवच मस्त्रा त्रा यासा ज धद्व कं नत्व॥ नम्रा ध्रानि
हर्तं नस्य वलं न न कमा द्र यान॥ मर्वं नन त्रयं क्रि त्वा तिर्यग्मनि
पूजा यत॥ ॐ हनो के महा नाग दानि ञ्ज ना पिपीलि न॥ कन्नी
व म् ल्म हत्ला कत्त वाती र वे ऊ त॥ द यं प्र ग्राव मि ख्याय
ग्म कायप्रियवादिन ॥ कावन्य न हिताया ॥ र काय वद् कस्य
।या। पानी ऊ व पदा नवं न स्मान स्यनी त्वि नं॥ आयु विद्या य
ल्मवम्मी वर्ल रे वन सं गयथ स्मात्म दं व्रलंन ल्मव यम्मा र गान
न॥३२॥ ॥ ॐ लिखा कालिका नं त्रहरल ल्मोनीस वा दं व कर्
न व कवचं समाक॥ ॥ संवत १८२२ कार्त्तिक कृष्ण या १३
दीया साम वार थ कृद्ध सिद्ध शत्रु ॥ लीखीत विष्णु नायन
दे



या न न कु ह्रु ता थ थ्रु या य मा ल: या न न वै ला नि द्वा न ता ह थ्रा न
हा: ह ना य: पू ञा या य ॥ व ता ङ्रु ञ व ल स: द [illegible] ञा थि सां न या व
थ ङ्ग दि भि ला क य द या व या न न या य: ॐ त्वं द यी र्ह हता नां
वं ग नि र्त य न य ल । त्व दा ञ य न स का नि ल्व द ति भ न न म म
॥ ह न स या स या न ति ला क थ ॥ ग म न न या थ आ ता य: कु सा य वि
या य य । भ ह्रि य कु वि । न व्सा य: पू न ना बि ग या य य:।

ञ घ ख्म न व ना ह क ल्यं: र्ध व ह्व न म वं कु ञ: कु
नि शि.ग.व्र थ म व ल न्य: जी मू ली ये ॥ ह न न र्व क्ले ञा
यी व र्ल पू न्य स्रु नं: हि म य क या नं: य ङ्र या ति स नि
म ल्य: या ङ्र कि ॐ नं: या म्स या द ति न कु ल न या
ल न भ्स कु ल्यं ग न ल लि न ल्नें ॐ र्ह द पू न्य ह मी



ASHA ARCHIVES 2.103